



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 1981/चैत्र 20, 1903
No. 146] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 1981/CHAITRA 20, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय
(साध्य विभाग)

अभिज्ञाना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1981

स.1. का. नि. 289 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, भाण्डागारण निगम अधि-
नियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए केन्द्रीय भाण्डागारण निगम नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन)
नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. केन्द्रीय भाण्डागारण नियम, 1963 के नियम 4 में, उप-नियम (3-क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3क) धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन नियुक्ति किए गए प्रबन्ध निदेशक की पदावधि, उसकी प्रबन्ध-निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष तक या उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, होगी ;

परन्तु यदि सरकार का कोई अधिकारी या किसी सरकारी कम्पनी का या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कानूनी निकाय का कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर प्रबन्ध-निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके मामले में पदावधि, उसकी प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष तक या उसकी अधिवर्षिता की तारीख तक, जो भी पूर्ववर्ती हो, होगी ।”

[फा. सं. 6-2/81-एस.जी.]

कमला प्रसाद, सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Food)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 1981

G.S.R. 289(E).—In exercise of the powers conferred by section 41 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Warehousing Corporation (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3A) The term of office of the managing director appointed under clause (g) of sub-section (1) of section 7 shall be 5 years from the date of his appointment as managing director or till the date of his superannuation, whichever is earlier ;

Provided that if an officer of the Government or an employee of a Government Company or of a statutory body owned or controlled by the Government is appointed on deputation as managing director, the term of office in his case shall be two years from the date of his appointment as managing director or till the date of his superannuation, whichever is earlier.”

[F. No. 6-2/81-SG]

KAMALA PRASAD, Jt. Secy.